

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय – हिंदी कक्षा – ०5 ASSIGNMENT – जून (2021-22)

प्रश्न 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

एक दिन तेनालीराम ने देखा कि उसके घर के आस-पास कुछ चोर घूम रहे हैं। वह उनका इरादा समझ गया। उसने चोरों को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, “देखो, आजकल चोरों का बड़ा ज़ोर है। अपने पास रुपया-पैसा और जो कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो। मैं उसे बाग के कुएँ में छिपा दूँगा।” चोरों ने यह सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर उसमें ईंट-पत्थर भरे और उसने घर से लगे बगीचे में बने कुएँ में वह संदूक डाल दिया। रात होने पर चोर कुएँ पर आए, लेकिन किसी की भी कुएँ में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे तीन बाल्टियाँ ले आए और कुएँ से पानी निकालने लगे। रात-भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से चोर वहाँ से भागने लगे। तभी तेनालीराम वहाँ आ पहुँचा और चोरों से बोला, “भैया, मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ, तुम लोगों ने रात-भर मेरे बगीचे में पानी दिया है।”

- (क) तेनालीराम के घर के आस-पास कौन घूम रहे थे?
- (ख) संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया?
- (ग) तेनालीराम ने रुपए-पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा?
- (घ) उपर्युक्त गद्यांश में से कोई-चार संज्ञा शब्द छाँटकर लिखिए ।
- (ङ) ‘बगीचा’ शब्द के कोई-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए ।

प्रश्न 2 निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए –

- (क) हम दोनों शहर गए हुए थे ।
- (ख) यह धरती लाखों-करोड़ों वर्ष पुरानी है ।

प्रश्न 3 अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानिए –

- (क) यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता ।
- (ख) लोक संगीत की उपेक्षा मत करो ।

प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए –

- (क) नम्र (ख) सरल (ग) चढ़ना (घ) अपना

प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके भेद बताइए –

- (क) लड़का ठण्ड से काँप रहा है ।
- (ख) बच्चा फुटबॉल से खेल रहा है ।
- (ग) मुस्कान रामायण पढ़ रही है ।

**प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -**

- (क) मुंबई में मनाए जाने वाले लोकप्रिय उत्सव कौन-से हैं ?
- (ख) अंत में लेखक ने मुंबई के लिए कौन-सी दो पंक्तियाँ कहीं हैं ?
- (ग) जो समय हाथ से गँवाता है वह क्या पाता है ?
- (घ) महात्मा गाँधी जी घड़ी को सदा अपने पास क्यों रखते थे ?
- (ङ) निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं -  
" बच्चों ! तुम भी उसी भाँति पल-पल से लाभ उठाओ ,  
व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण , ऐसा नियम बनाओ ।"

**प्रश्न 7 बहन की शादी के लिए मित्र को निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए ।**